



**महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण, पुणे ३०.**

**संकलित मूल्यमापन २ : २०१७-१८**

**शिक्षक सूचना पुस्तिका**

**विषय - सामान्य विज्ञान**

**कक्षा - छठीं से आठवीं**

### अनुक्रमणिका

अ.क्र.	कक्षा	सूचना	पृष्ठ क्रमांक
1)	कक्षा छठीं से कक्षा आठवीं	लिखित प्रश्नों के संबंध में शिक्षकों को सूचना	3
2)	कक्षा छठीं से कक्षा आठवीं	मौखिक प्रश्नों के संबंध में शिक्षकों को सूचना	4 तथा 5
3)	कक्षा छठीं से कक्षा आठवीं	प्रायोगिक प्रश्नों के संबंध में शिक्षकों को सूचना	5 से 7

## **संकलित मूल्यमापन 2 : 2017-18**

**विषय : सामान्य विज्ञान**

### **लिखित प्रश्नों के संदर्भ में शिक्षकों के लिए सूचना।**

**सामान्य सूचना : कक्षा – छठी से आठवीं के लिए।**

- 1) उत्तरसूची में दिए अनुसार सही उत्तर विद्यार्थियों द्वारा लिखने पर पूर्ण अंक प्रदान करें।
- 2) कक्षा छठी में प्रश्न क्रमांक 1 से 4 में उपप्रश्न क्रमांक ‘इ’ से ‘ग’ इन उपप्रश्नों के लिए सूचनानुसार एक प्रतिसाद/मुद्रा/कथन लिखने पर 1 अंक दें। दो प्रतिसाद/मुद्रा/कथन लिखने पर 2 अंक दें।
- 3) कक्षा सातवीं तथा आठवीं में प्रश्न क्रमांक 1 से 5 में उपप्रश्न क्रमांक ‘ग’ से ‘ह’ इन उपप्रश्नों के लिए सूचनानुसार एक प्रतिसाद/मुद्रा/कथन लिखने पर 1 अंक प्रदान करें। दो प्रतिसाद/मुद्रा/कथन लिखने पर 2 अंक प्रदान करें।

#### **कक्षा – छठी**

- 1) प्रश्न क्रमांक 1 से 4 में ‘अ’ से ‘ग’ इस प्रकार सात उपप्रश्न हैं।
- 2) प्रश्न क्रमांक 1 से 4 में ‘अ’ से ‘ड’ ये चार उपप्रश्न प्रत्येक के लिए 1 अंक हैं।
- 3) प्रश्न क्रमांक 1 से 4 में ‘इ’ से ‘ग’ ये तीन उपप्रश्न प्रत्येक के लिए 2 अंक हैं।

#### **कक्षा – सातवीं**

- 1) प्रश्न क्रमांक 1 से 5 में ‘अ’ से ‘ग’ इस प्रकार सात उपप्रश्न हैं।
- 2) प्रश्न क्रमांक 1 से 5 में ‘अ’ से ‘ड’ ये चार उपप्रश्न प्रत्येक के लिए 1 अंक हैं।
- 3) प्रश्न क्रमांक 1 से 5 में ‘इ’ से ‘ग’ ये तीन उपप्रश्न प्रत्येक के लिए 2 अंक हैं।

#### **कक्षा – आठवीं**

- 1) प्रश्न क्रमांक 1 से 5 में ‘अ’ से ‘ह’ इस प्रकार आठ उपप्रश्न हैं।
- 2) प्रश्न क्रमांक 1 से 5 में ‘अ’ से ‘फ’ ये छह उपप्रश्न प्रत्येक के लिए 1 अंक हैं।
- 3) प्रश्न क्रमांक 1 से 5 में ‘ग’ तथा ‘ह’ ये दो उपप्रश्न प्रत्येक के लिए 2 अंक हैं।
- 4) प्रश्न क्रमांक 3 में उपप्रश्न क्रमांक ‘ग’ के लिए कोई भी दो सही चिह्न का उपयोग कर विद्युत परिपथ को आकृति बनाने पर प्रत्येक के लिए 1 अंक प्रदान करें।
- 5) प्रश्न क्रमांक 5 में उपप्रश्न क्रमांक ‘ह’ के लिए सही आकृति बनाने पर 1 अंक तथा आकृति के किसी एक भाग को नामांकित करने पर 1 अंक प्रदान करें।

संकलित मूल्यमापन 2 : शिक्षकों के लिए सूचना : कक्षा – छठी से आठवीं : विषय – सामान्य विज्ञान : (3)

## मौखिक परीक्षा

### सामान्य सूचना : कक्षा - छठी से आठवीं के लिए ।

**सूचना :** 1) विद्यार्थियों को मौखिक प्रश्नों के उत्तर मन ही मन में विचार करके लिखना हैं ।

2) निम्न प्रश्न पूछने के पहले लिखित जाँच परीक्षा के पेपर विद्यार्थियों को वितरित करें । उसके बाद पूरे कक्षा को उद्देशित कर मौखिक प्रश्न पूछे तथा O 1 से O 5 इन क्रमांको पर विद्यार्थियों को उचित उत्तर लिखित रूप में लिखने को कहें ।

#### कक्षा - छठी

अंक - 5

O 1 : गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की ?

सर आयड़ॅक न्यूटन

O 2 : एस. आई पद्धति में कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है ?

ज्यूल

O 3 : ध्वनि की निर्मिति के लिए किसकी आवश्यकता होती है ?

कंपन की

O 4 : सबसे बड़ी सूर्य घंडी कहाँ स्थित है ?

जंतर-मंतर (दिल्ली में)

O 5 : महाराष्ट्र में उल्का पात के आधात से तैयार हुआ सरोसर (तालाब) कौन-सा है ?

लोणार झील / लोणार सरोवर

#### कक्षा - सातवीं

अंक - 5

O 1 : जंगल का संवर्धन किस प्रकार करोगे ? उसे लिखों।

वृक्षारोपण करूँगा, कम आयुवाले पेड़ नहीं तोड़ूगाँ।

O 2 : शून्यछाया दिन अर्थात् क्या हैं ? उसे लिखों ।

जिस दिन सूर्य सीधा सिर पर होता है, उस दिन को शून्य छाया दिन कहते हैं ।

O 3 : ध्वनि की तीव्रता किस इकाई से मापते हैं ? लिखों ।

डेसीबल

O 4 : किसी एक चुंबकीय संमिश्रण का नाम लिखों ।

अल्निको

O 5 : क्षरण किन घटकों के कारण होता है ? उसे लिखों ।

हवा की ऑक्सीजन, आर्द्रता, रसायनों की बाष्प

संकलित मूल्यमापन 2 : शिक्षकों के लिए सूचना : कक्षा - छठी से आठवीं : विषय - सामान्य विज्ञान : (4)

## कक्षा – आठवीं

गुण – 5

O 1 : मिथेन का अणूसूत्र लिखो ।



O 2 : समुद्र में पाए जानेवाले किस प्राणी से मोती प्राप्त होता है ?

आँयस्टर

O 3 : बर्फ का द्रवणांक कितना है ?

बर्फचा द्रवणांक  $0^\circ \text{ से. है}$  ।

O 4 : शीतपेय के बाटल का ढक्कन निकालने पर कौन-सी गैस फूसफूसांहट के साथ बाहर निकलती है ।

कार्बन डाइऑक्साइड

O 5 : माचिस, फटाके तैयार करने के लिए किस अधातु का उपयोग करते है ? उसका नाम लिखो ।

लाल फॉस्फोरस

## प्रयोग के लिए अंक प्रदान करने की शर्तें

सामान्य सूचना : कक्षा – छठी से आठवीं के लिए ।                    अंक – 5

प्रयोग के लिए दिए गए प्रयोग सूची को पढ़कर उसके लिए आवश्यक उपकरणों समुचित में मात्रा प्रयोग परीक्षा लेने के पूर्व उपलब्ध कराके रखें । उपकरणों का उपयोग करके ही प्रयोग परीक्षा ली जाए ।

प्रयोग परीक्षा के नीचे प्रयोग की सूची दी गई है । उनमें से प्रत्येक विद्यार्थी के लिए किसी एक प्रयोग का चुनाव करें । विद्यार्थियों से ही प्रयोग करा लें ।

नीचे दिए गए शर्तों के आधार पर अंक प्रदान करें । कुछ प्रयोगों के अंकदान में आवश्यकतानुसार अंशतः परिवर्तन करें ।

- |  |       |
|--|-------|
| 1) उपकरणों की जानकारी हैं ।                        | अंक 1 |
| 2) उपकरणों की व्यवस्था/रचना की हैं ।               | अंक 1 |
| 3) प्रयोग के लिए उचित कार्यपद्धति का अवलंबन करें । | अंक 1 |
| 4) निरीक्षणों को लिखें ।                           | अंक 1 |
| 5) अनुमान/निष्कर्ष निकाला हैं ।                    | अंक 1 |

संकलित मूल्यमापन 2 : शिक्षकों के लिए सूचना : कक्षा – छठी से आठवीं : विषय – सामान्य विज्ञान : (5)

## कक्षा - छठी : प्रयोग के लिए सूची

P 1)	चुंबक के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के गुणधर्म का अध्ययन करना । उपकरण : चुंबक-2, डोरी, स्टैंड । निष्कर्ष : चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण, तो विजातिय ध्रुवों में आकर्षण होता है ।
P 2)	उत्तोलक का बल, भार, ढालू, इनका स्थानानुसार होने प्रकार का अध्ययन करना । उपकरण : 1. मापनपट्टी, पेंसिल, पत्थर 2. अडकिता 3. चिमटा. निष्कर्ष : बल, ढालू तथा भार इनका स्थानानुसार तीन प्रकार होते हैं ।
P 3)	ऊपर की ओर वजन (भार) उठाने के लिए नीचे की दिशा में बल लगाना पड़ता है यह घिरनी की सहायता से अध्ययन करना । उपकरण : धागे का खाली रिल । घिरनी, पेंसिल, चिकटपट्टी, डोरी, वजन / पत्थर इत्यादि ।
P 4)	ध्वनि का प्रसरण भिन्न-भिन्न माध्यम में भिन्न-भिन्न वेग से होता है, उसका अध्ययन करना । उपकरण : पानी, पिचकारी, दो गुब्बारे (पानी भरा हुआ, हवा भरा हुआ)
P 5)	प्रकाश के संक्रमण का अध्ययन करना । उपकरण : मोमबत्ती, दाभन, तीन समान आकार के पुट्ठे. निष्कर्ष : प्रकाश के सीधे दिशा में गमन करने को प्रकाश का रेखीय संक्रमण कहते हैं ।

## कक्षा - सातवीं : प्रयोग के लिए सूची

P 1)	अपमार्जक क्रिया का अध्ययन करना । उपकरण : काँच की बोतल, पानी, तेल, अपमार्जक का विलयन । निष्कर्ष : अपमार्जक का उपयोग करने पर मिश्रण का रंग .....
P 2)	प्रकाश विकिरण का अध्ययन करना । उपकरण : बीकर, पानी, दूध, चम्मच, लेझर निष्कर्ष : पानी पर तैरनेवाले दूध के .....
P 3)	रंजकद्रव्य पृथक्करण पद्धती का अध्ययन करना । उपकरण : बीकर, फिल्टर पेपर, श्याही, चाक (खडिया) निष्कर्ष : रंजकद्रव्य पृथक्करण में पदार्थ का गुणधर्म .....
P 4)	चुंबकीय क्षेत्र की वेधन क्षमता का अध्ययन करना । उपकरण : टाचपिन, लोहचुंबक, प्लास्टिक की बोतल, बर्तन, पानी, पुट्ठा इत्यादि । निष्कर्ष : चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता .....
P 5)	बिंदु स्रोत के द्वारा मिलनेवाली छाया का अध्ययन करना । उपकरण : मोमबत्ती, पुट्ठा, गेंद (छोटा व बड़ा) । निष्कर्ष : बिंदु स्रोत द्वारा प्राप्त छाया .....

संकलित मूल्यापन 2 : शिक्षकों के लिए सूचना : कक्षा - छठी से आठवीं : विषय - सामान्य विज्ञान : (6)

## कक्षा – आठवीं : प्रयोग के लिए सूची

P 1)	विद्युत सेल, बल्ब, प्लग कुंजी तथा तार इनकी पहचान कर चिह्नों का अध्ययन करना । साहित्य : विद्युत सेल, बल्ब, प्लग कुंजी तथा तार इत्यादी । निरीक्षण : .....
P 2)	शुष्क विद्युत सेल की रचना का अध्ययन करना । उपकरण : एक निरूपयोगी विद्युत सेल । निरीक्षण : .....
P 3)	धातु यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, यह मॉनेशियम का फीता जलाकर देखना । उपकरण : मॉनेशियम का तार (फीता), स्प्रीट का लॅम्प, चिमटा इत्यादी । निरीक्षण : .....
P 4)	मिट्टी के प्रकारानुसार उसके कणों का आकार तथा पानी को धारण करके रखने की क्षमता का अध्ययन करना । उपकरण : काली मिट्टी, लाल मिट्टी, रेत इत्यादी । निरीक्षण : .....
P 5)	नमक के जलीय विलयन से नमक और पानी प्रभावी आसवन द्वारा अलग करना । उपकरण : नमक का जलीय विलयन, चंबू, संघननी, बीक, तापमापी, बर्नर (स्प्रीट का लॅम्प) इ. निरीक्षण : .....
P 6)	धातु तथा अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन करना । साहित्य : तांबे का तार, सिक्का, कोयला, पेंसिल इत्यादी । निरीक्षण : .....

सरल प्रणालीमें विद्यार्थियों के लिखित परीक्षा के कक्षा 6 वी के प्रश्न क्र. 1 ते 4 तथा कक्षा 7 वी व 8 वी के लिए प्रश्न क्रमांक 1 ते 5 के प्राप्तांक तथा प्रयोग परीक्षा तथा मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंक स्वतंत्र रूप से दर्शाना आवश्यक है ।

